

13th May, 2025

The National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor
Plot No. C/1, G Block
Bandra Kurla Complex
Bandra (E)
Mumbai- 400 051

NSE Symbol : HAVELLS

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai- 400 001

Scrip Code : 517354

Sub: Newspaper Clippings – Economic Times & Jansatta

Dear Sir,

In terms of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with corresponding circulars and notifications issued thereunder, we are enclosing herewith the Newspaper clippings from the Economic Times (English) and Jansatta (Hindi) editions of 13th May, 2025 where a Public Notice has been published by way of an advertisement by the Company in compliance of MCA Circular No. 20/2020 dtd 5th May, 2020, before sending the Notice of the ensuing AGM (Annual General Meeting) together with the Annual Report to all the Members of the Company and other persons so entitled.

Please note that the next AGM of the Company has been scheduled to be held on 17th day of June, 2025 through VC (Video Conferencing)/ OAVM (Other Audio Visual Means).

The above is for your information and records.

Thanking you.

Yours faithfully,
for **Havells India Limited**

(Sanjay Kumar Gupta)
Company Secretary

Encl: As above

HAVELLS INDIA LTD.

Corporate Office: QRG Towers, 2D, Sector 126, Expressway, Noida - 201304, U.P (INDIA). Tel: +91-120-3331000, Fax: +91-120-3332000, E-mail: marketing@havells.com, www.havells.com
Registered Office: 904, 9th Floor, Surya Kiran Building, K.G. Marg, Connaught Place, New Delhi - 110001. (INDIA)
For CARE 360, Call us : for Havells : 08045771313, for Lloyd : 08045775666. CIN: L31900DL1983PLC016304

Land Selected for Shipbuilding, Repair Centres in Andhra, Tamil Nadu & Guj

Cochin Shipyard, HD Hyundai in talks for ₹10k cr mega project, TN's Thoothukudi may be chosen site

Twesh Mishra

New Delhi: The Centre has identified land for establishing mega shipbuilding and repair centres in Andhra Pradesh, Tamil Nadu, and Gujarat. Officials aware of the developments said South Korea's HD Hyundai is close to finalising a partnership with Cochin Shipyard Limited (CSL) for domestically manufactured large vessels for inter-continental trade.

"CSL and HD Hyundai are zeroing in on the location of this shipbuilding facility," a senior official told ET while adding that Thoothukudi in Tamil Nadu is expected to be finalised for this mega infrastructure project with expected investment of around ₹10,000 crore by completion. Responding to queries from ET on talks around partnership with CSL, HD Hyundai said "Nothing has been confirmed."

Setting Sail

Besides S Korea's Hyundai, companies based in **Netherlands, France, and Middle East** interested in projects in India

India currently has less than 1% of global shipbuilding market

Aims for global top 10 ranking by 2030, top five by 2047

Shipbuilding financial assistance policy worth ₹18,090 cr and maritime development fund of ₹25,000 cr were announced in this year's budget



CSL did not respond till press time. This progress is close to the finance ministry's Expenditure Finance Committee (EFC) completing appraisals for an enhanced shipbuilding financial assistance policy worth ₹18,090 crore, and a maritime development fund of ₹25,000 crore announced in Budget 2025-26. The other two land parcels are being offered for more international shipbuilding projects. "Interest has been received from Netherlands, France, and Middle East-headquartered companies for setting up manufacturing facilities in India," the official said. Officials aware of the deliberations said there will soon be greater financial assistance to the shipbuilding industry, seeking to support the manufacture of large vessels in the country.

India-EU FTA Talks Turn to Carbon Tax, QCO Issues

EU pressing New Delhi to finish pact in one go instead of two phases; 11th round of talks to go on till May 16

Kirtika Suneja

New Delhi: India and the EU are discussing ways to manage non-tariff barriers such as the bloc's Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) and Deforestation Regulation (EUDR) and New Delhi's Quality Control Orders (QCO) in the ongoing round of their bilateral free trade pact talks.

While there is an understanding to conclude the proposed India-EU FTA in two phases, the bloc has asked New Delhi if the pact can be concluded in one go since a similar deal with the UK was done in a single phase. The eleventh round of negotiations are taking place in New Delhi from May 12-16.

"While the two sides are negotiating tariffs but the issue is now how to manage non-tariff barriers. Both sides have raised concerns," said a person in the know of the development.

India has already said that it will impose retaliatory duties if the EU imposes carbon tax on Indian goods. The EU's CBAM is expected to translate into a 20-35% tax on select imports into the bloc from January 1, 2026 and will impact the cement, iron and steel, aluminium, fertiliser, electricity and hydrogen sectors.


This assumes significance as India will have the right to retaliate or seek compensation from the UK for its industry for losses

Non-Tariff Concerns

EU has concerns on India's QCOs on furniture, tyres

Import licensing, investment protection also part of talks

EU'S CBAM, DEFORESTATION REGULATION MAY AFFECT \$9.5 BN OF INDIA'S EXPORTS



incurred due to CBAM under their recently concluded free trade pact. The EUDR seeks to prevent the import of specified goods contributing to deforestation and forest degradation in the bloc. It covers coffee, leather, oil cake, wood furniture, paper, and paperboard. The EU CBAM and EUDR are expected to affect \$9.5 billion of India's exports to the EU, which amounts to 9% of India's exports to the world or 12.9% of India's exports to the bloc, the Economic Survey for 2024-25 said, citing studies. "India is set to become the fourth largest economy but is not the fourth largest recipient of foreign direct investment. There are concerns on this front also," the person said. Brussels has also ruled out visa issues from the purview of the trade pact. The India-EU FTA is to be concluded by this year end. Separate negotiations for an Investment Protection Agreement and an Agreement on Geographical Indications in June 2022 are also underway.

CBDT Calls for More Disclosure on Foreign Donations

Political parties, charitable trusts to file new ITR-7

Our Bureau

New Delhi: Political parties, charitable trusts, universities and research bodies now require to disclose more information on income from foreign contributions, voluntary donations, accumulated income, and application of funds. The Central Board of Direct Taxes (CBDT) notified a revised Income-tax Return Form ITR-7, Monday, effective April 1, 2025, for assessment year 2025-26. The ITR 7 is filled by political parties, charitable trusts and educational, research institutions. The updated form also introduced compliance checks for specified violations that could lead to denial of exemption. The changes aim to improve transparency, given the abuse of tax exemption in the past by some political parties and charitable institutions. The form requires the assessee to report capital gains separately for transactions before and after July 23, 2024, due to changes in capital gains rules. The notification says that capital loss on share buy-backs can be claimed if dividend income is shown as 'income from other sources', applicable from October 1, 2024. The form also captures deductions claimed under Section 24(b) for interest paid on borrowed capital for house property and must report specific TDS section codes for compliance and verification. Digital signature is mandatory for political parties and entities requiring account audits.

HAVELLS INDIA LIMITED

Regd. Off. : 904, 9th Floor, Surya Kiran Building, K G Marg, Connaught Place, New Delhi - 110 001

Corporate Off. : QRG Towers, 2D, Sector - 126, Expressway, Noida - 201 304

Tel. # 0120-3331000, Fax # 0120-3332000, web: www.havells.com

Email: investors@havells.com, CIN - L31900DL1983PLC016304

42ND AGM OF HAVELLS INDIA LIMITED TO BE HELD THROUGH VC (VIDEO CONFERENCING)/ OAVM (OTHER AUDIO-VISUAL MEANS)

1. Notice is hereby given that the 42ND AGM (Annual General Meeting) of the Company is scheduled to be held on **17TH June, 2025, Tuesday at 11:00 A.M. through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM)** in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 03/2022, 10/2022, 11/2022, 09/2024 and all other applicable laws and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India and Securities and Exchange Board of India (SEBI) permitting the holding of AGM through VC or OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue, to transact the Ordinary and Special businesses as set out in the Notice.

2. In compliance with the above circulars, electronic copies of the Notice of the AGM alongwith the Integrated Annual Report for the Financial Year 2024-25 will be sent to all the shareholders whose email addresses are registered/ available with the Company/ Depository Participants. For all those shareholders who have not so registered, a letter providing the web-link, including the exact path, where complete details of the Annual Report are available will also be sent at their address registered with the Company or as available from the data downloaded from the depositories. However, the Shareholders of the Company may request physical copy of the Notice and Integrated Annual Report from the Company by sending a request at investors@havells.com in case they wish to obtain the same.

3. The Notice of the AGM and the Annual Report will also be available on the Company's website www.havells.com in the Investors Section under Financials in the Annual Reports tab, the websites of the stock exchanges (NSE & BSE) and on the website of the NSDL (agency for providing the Remote e-Voting facility) at <https://www.evoting.nsdl.com>. In case you have not registered your e-mail address and/ or not updated your bank account mandate for receipt of dividend,

- **Shareholders holding shares in dematerialised mode** are requested to register their email addresses, mobile numbers, bank account details for receipt of dividend and/ or other details, with their relevant depositories through their depository participants.
- **Shareholders holding shares in physical mode** are requested to furnish their email addresses, mobile numbers, bank account details for receipt of dividend and/ or other details in Form ISR-1 and other relevant forms prescribed by SEBI, with the Company's Registrars and Share Transfer Agent, MUGF Intime India Private Limited, Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH 2, LSC, C-1 Block, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi-110058; Telephone: 011-41411052, 93.011-49411000; Fax: 011-41410591; Email: delhi@in.mnps.mugf.com; Website: www.in.mnps.mugf.com

Relevant details and forms prescribed by SEBI in this regard including the mode of despatch are available on the website of the Company at <https://www.havells.com/en/discover-havells/investorrelation/shareholders-corner.html> for information and use by the Shareholders. You are requested to kindly take note of the same and update your particulars timely.

4. Shareholders will have an opportunity to cast their vote remotely on the businesses as set out in the Notice of AGM through electronic voting system. The manner of voting remotely for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered their email addresses will be available in the Notice to the shareholders. The details will also be made available on the website of the Company. Shareholders are requested to visit www.havells.com for such details.

5. The Notice of 42ND AGM will be sent to the shareholders in accordance with the applicable laws on their email addresses shortly.

6. Pursuant to the amendments introduced in the Income Tax Act, 1961 ('the IT Act') vide Finance Act, 2020, w.e.f. April 1, 2020, dividend declared, paid or distributed by a Company on or after April 1, 2020, is taxable in the hands of the shareholders. The Company shall, therefore, be required to deduct TDS/ WHT at the time of payment of dividend at the applicable tax rates. The rates of TDS/ WHT would depend upon the category and residential status of the shareholder. Members are requested to complete and/ or update their Residential Status, PAN, Category as per the IT Act with their Depository Participants (DPs) or in case shares are held in physical form, with the RTA/ Company by sending documents by 23RD May, 2025, Friday. For the detailed process, please visit website of the Company and go through "Instructions on TDS for Dividend" at https://havells.com/media/wysiwyg/PDF/Dislosures/TDS-on-Dividend/Final_Dividend_FY2024-25.pdf

7. Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 the Register and Share Transfer books of the Company will remain closed from 26TH May, 2025, Monday to 30TH May, 2025, Friday (both days inclusive) for determining the eligibility of payment of Final Dividend of Rs. 6.00 per Equity share of Re. 1/- each for the financial year ended March 31, 2025, as recommended by the Board, in its meeting held on 22ND April, 2025. Accordingly, pursuant to Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Record Date will be 25TH May, 2025. The Dividend, if any declared, shall be payable to those Shareholders whose name(s) stand registered:

- (a) as Beneficial Owner as at the end of business hours on 25TH May, 2025 as per the lists to be furnished by National Securities Depositories Limited and Central Depository Services (India) Limited in respect of the shares held in electronic form, and
- (b) as Member in the Register of Members of the Company/ Registrars & Share Transfer Agent after giving effect to valid share transmissions, if any, in physical form lodged with the Company upto the end of business hours on 25TH May, 2025

For Havells India Limited
Sd/-
Sanjay Kumar Gupta
Company Secretary
Noida, May 12, 2025

AFTER US-CHINA TRADE DEAL Stiffer Competition for Indian Exporters

Cos eye gains in pharma API, engg goods

Our Bureau

New Delhi: China's proposal to cut tariffs on American goods to 10% from 125% for 90 days, and a reciprocal US proposal to reduce levies on Chinese goods to 30% from 145% offer both challenges and opportunities for India, exporters said. The tariff reduction is likely to support growth in US-China bilateral trade in high-value segments such as electronics, machinery and chemicals. The measures are part of the US-China trade deal announced Monday and represent a significant thaw in trade tensions between the two large economies. The deal has come amid India and the US negotiating a Bilateral Trade Agreement (BTA) with the two sides expected to conclude an interim arrangement by July 8, ahead of the additional 26% reciprocal tariff on Indian goods entering the US coming into effect. The issue could be discussed during Indian trade negotiators' visit to Washington next week for holding further talks on the BTA as the tariff advantage to Indian exporters, because of the earlier higher duties on Chinese goods, could get hit. The US-China deal is likely

STKP

श्याम प्रसाद मूकजी चौधरी कोलकाता
Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata
(Formerly KOLKATA PORT TRUST)

GeM Bid No.: GEM/2025/B/6204613 & Tender No.: MRN/NC/341/2025

HIRING OF ONE No. 20 TON BOLLARD PULL TUG FOR KDS

Estimated Value of the Tender for Five years: Rs.1277 Lakhs (excluding GST)

Last date for submission of Techno-Commercial Bid & Price Bid: 06.06.2025 at 1100 hours

For details, visit <https://gem.gov.in> and <https://smp.smporkolkata.gov.in>

AMARAVATI DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED (ADCL)

CIN Number : U63000MP2816500100050, Email: adcl@amaravatilimited.com
54-15-1, Venkateswara Nagar, Ring Road, Vijayawada, NTR Dist, Andhra Pradesh-520008.

Request for Proposal

NIT No. 409/ADCL/IPD/2025 **Dated: 12.05.2025**

Request for Proposal (RFP) for Engagement of Project Management Consultant (PMC) for (i) Construction of Roads, Storm Water Drains, Water Supply Network, Sewerage Network, Utility Ducts for Power & ICT, Reuse Water, Pedestrian Tracks, Cycle Track, Avenue Plantation & Street Furniture in E16, N1, N2, N3A&B, N5 Roads in Amaravati and (ii) Construction of Road, Storm water Drainage, and Utilities for (a) E15 Road Extension to Old National Highway Mangalagiri and (b) E13 Road Extension to National Highway-16; including DLP 2 years in Andhra Pradesh.

The RFP can be downloaded on AP e-procurement portal from 13.05.2025 up to 04.06.2025 up to 15.30 Hrs. Due date for submission of Bid is 04.06.2025 up to 16.00 Hrs. Technical Bid opening is on 04.06.2025 @16.30 Hrs. For further details please refer to www.approcurement.gov.in

Sd/- Chairperson and Managing Director, ADCL, Vijayawada

FORM G

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR AV/OM INDIA HOUSING FINANCE PRIVATE LIMITED OPERATING IN HOUSING FINANCE INDUSTRY ACROSS LOCATIONS IN INDIA

(Under Regulation 36A(1) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

This Form G dated 13th May 2025 has been published by the undersigned, pursuant to the approval of the committee of creditors ("CoC") of AV/OM India Housing Finance Private Limited ("CD") in its meeting held on 09th May 2025.

RELEVANT PARTICULARS	
1 Name of the corporate debtor along with PAN/ CIN/LLP No.	AV/OM INDIA HOUSING FINANCE PRIVATE LIMITED CIN : U65993DL2016PTC291377
2 Address of the registered office	Registered & Corporate Office: Worldmark 3, Unit 306A, 3rd floor, Asset Area no. 7, Hospitality District, Delhi Aerocity, Near Indira Gandhi International Airport, New Delhi-110037
3 URL of website	https://www.avom.in/
4 Details of place where majority of fixed assets are located	Registered & Corporate Office: Worldmark 3, Unit 306A, 3rd floor, Asset Area no. 7, Hospitality District, Delhi Aerocity, Near Indira Gandhi International Airport, New Delhi-110037
5 Installed capacity of main products/ services	Not Applicable
6 Quantity and value of main products/ services sold in last financial year	The CD is a Housing Finance Company. Further details regarding the lending portfolio of the CD will be available on the virtual data room.
7 Number of employees/ workmen	Approx 3,600 employees as on the Insolvency Commencement Date (20th February 2025)
8 Further details including last available financial statements (with schedules) of two years, lists of creditors, relevant dates for subsequent events of the process are available at URL:	The audited financial statements and an extract of the letter of the statutory auditor of the CD issued in relation to the audited financial statements of the CD are available at https://www.avom.in/ . Other relevant details can be obtained by sending an email to - aviomadministrator@avom.in and resolution@avom.in
9 Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at URL:	The detailed Invitation for Expression of Interest containing these details, is available on the website of the CD and can be accessed at https://www.avom.in/
10 Last date for receipt of expression of interest	28 May 2025
11 Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	07 June 2025
12 Last date for submission of objections to provisional list	12 June 2025
13 Date of issue of final list of prospective resolution applicants	22 June 2025
14 Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	27 June 2025
15 Last date for submission of resolution plans	27 July 2025
16 Process email id to submit EOI	aviomadministrator@avom.in and resolution@avom.in
17 Details of the corporate debtor's registration status as MSME	The Corporate Debtor is not registered as a micro, small or medium enterprise in accordance with the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.

NOTES – 1. The timelines, as stated herein, may be subject to: (i) modification and extension (with the approval of the CoC); and (ii) any extension/ exclusion to the timelines for completion of CIRP of the CD under the Code read with the CIRP Regulations.
2. This Form G should be read in conjunction with the terms, conditions, and disclaimers in the detailed Invitation for the Expression of Interest, which shall be deemed to form a part and parcel of this Form G.

Sd/- Ram Kumar (Administrator)

Registered Address: Worldmark 3, Unit 306A, 3rd floor, Asset Area no. 7, Hospitality District, Delhi Aerocity, Near Indira Gandhi International Airport, New Delhi-110037
For AV/OM India Housing Finance Private Limited

Date: 13 May 2025
Place: New Delhi

FIGHTING FINANCIAL FRAUD Plan in Works to Catch 'Mule' A/cs in Real Time

Such bank accounts are used by fraudsters to move illegal funds; CEIB is in talks with banks to develop new plan

Dheeraj Tiwari

New Delhi: In a bid to tackle financial frauds, the government is working with banks and other stakeholders to develop an enhanced due diligence process that can identify 'mule' accounts in real time while ensuring it does not impede legitimate account opening. Mule, or fraudulent, bank accounts are used by fraudsters to move illegal funds through the banking system. An official aware of the developments said the Central Economic Intelligence Bureau (CEIB) has suggested access to mobile number-related identifiers and databases with banks for risk assessment. "We have sought suggestions from banks on how to make the data more suitable and usable while ensuring that it is not a barrier for account opening and other transactions," the official said. Earlier, banks had highlighted that under the extant regulations, different customers can use one mobile number, particularly in case of family accounts, which at times gets misused. "We have suggested building holistic customer, account and transaction profiles for accurate portfolio monitoring," said a senior bank executive requesting anonymity. This will essentially mean sharing and verification of information provided through officially valid documents submitted during SIM card registration and matching it with the account details. "This, however, cannot be a reason to not open the account or report it suspicious if the information doesn't match unless there are more red flags," the above quoted executive said.

Committee under IBA had earlier suggested API integration with DoT or telecom service providers during digital onboarding of new a/cs

Earlier this year, a committee formed by the Indian Banks' Association (IBA) also recommended API integration with the Department of Telecommunications (DoT) or telecom service providers in the digital onboarding process of account opening. At present, DoT provides a mobile number revocation list. The committee recommended that this be further upgraded to verify name, date of birth and email address in real time from the mobile service provider. Banks had also proposed using the Election Commission database to verify individuals who open accounts using voter identification cards and Form 60—in the absence of a permanent account number (PAN)—and capping the number of transactions on such accounts. The IBA committee had recommended integrating cybersecurity teams of all banks under a unified framework to enable faster, real-time action, including freezing of accounts immediately upon the reporting of fraud. The finance ministry has also directed banks and financial institutions to use artificial intelligence tools, including MuleHunterAI developed by the Reserve Bank of India, to curb growing financial frauds.

Power Minister Asks Goa to Consider N-power Plant

New Delhi: Power minister Manohar Lal on Monday asked Goa to consider the possibility of establishing a nuclear power facility as a long-term measure for the state's energy security and sustainability. Around 80% of Goa's electricity is procured from other states. The minister urged the state to explore all possible avenues for local ge-

Curbing Fraud

CEIB suggests access to mobile number-related identifiers

Match account details with officially valid documents provided for SIM registration



According to Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C):

There are around **2 million mule accounts** in Indian banking system

Associated with 800,000 suspects

Banks earlier recommended using voter data to verify bank accounts

neration of power, according to a government statement. Lal made the remarks during a review meeting with chief minister Pramod Sawant and senior officials in Panaji. The Centre is currently making a roadmap for achieving 100 GW of nuclear power capacity by 2047. — **Our Bureau**

TIMES ascent

Catapult your career




Regd. Office: IDBI Bank Ltd, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai – 400005. Tel: 022-66553355

IDBI Bank Ltd.
Advertisement No. 3/ 2025-26
Recruitment of Junior Assistant Manager (JAM), Grade 'O' 2025-26

IDBI Bank Ltd. invites online applications for the following position :

Sl.No.	Position	Tentative Vacancies
1.	JAM - Grade 'O'	676



For eligibility criteria (age, qualification etc.), requisite fees and other details, please visit the 'Careers' section of the Bank's website www.idbibank.in

Online registration window is open from May 08, 2025 – May 20, 2025.

NOTE: IDBI Bank reserves the right to accept or reject any/ all application(s) without assigning any reason(s) whatsoever. Any addendum/modifications with regards to the selection process shall only be published on the Bank's website (career section) www.idbibank.in and not through any other mode. Candidates are requested to regularly visit the website as above, for update in the matter.

Place – Mumbai **General Manager- HR**



State Bank of India
Central Recruitment & Promotion Department
Corporate Centre, Mumbai
Phone: 022-22820427; email: crpd@sbi.co.in



RECRUITMENT OF CIRCLE BASED OFFICERS

Applications are invited from eligible Indian citizens for appointment as Circle Based Officers in State Bank of India on regular basis.

NUMBER OF VACANCIES: 2964 (Including Backlog Vacancy)

Eligibility criteria (age, qualification, etc.), requisite fees and other details, along with the link for online submission of applications and online payment of fee, are available on Bank's website <https://bank.sbi/careers> under Advertisement no. **CRPD/CBO/2025-26/03**. Candidates are advised to go through the detailed advertisement and ensure their eligibility and other details before applying and remitting fees.

• DATE FOR FILING ONLINE APPLICATION & PAYMENT OF FEES: 09.05.2025 TO 29.05.2025

For any query, please write to us through the link **"CONTACT US"** → **"Post Your Query"** which is available on Bank's website <https://bank.sbi/careers>.

Place: Mumbai
Date: 09.05.2025 **General Manager (RP & PM)**



ORIENTAL UNIVERSITY, INDORE

REQUIRES TOP CLASS PROFESSIONALS

Vice - Chancellor

The candidate should possess proven Academics & Leadership Qualities

Registrar

Candidate having experience of working with regulatory bodies

Professor, Associate Professor, Assistant Professor

Agriculture, Commerce, Education, Engineering (CE, CSE, EC, EE, ME), Humanities & Social Science, Law, Library & Information Science, Management, Media Studies, Pharmacy, Science (Physics, Chemistry, Mathematics, Forensic Science)

Administrative Positions

Director IQAC, CFAO, Deputy Registrar, Training & Placement Officer, Assistant Controller of Exam, Medical Officer, Staff Nurse, Accountant, Sports Officer, Lab Technician, Office Assistant

Qualification and experience as per UGC/Regulatory body norms

Interested candidates may send their application in prescribed format (Barcode) to careers@orientaluniversity.in along with resume on or before 30 May 2025

For any queries contact- 0731-3565000, Whatsapp - 93436-95069
Address: Opp. Reoti Range, Gate No. 1, Jakhya, Sonwer Road, Indore (MP) 453555

Join US



